

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1981/पौष 11, 1902
No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 1-ईडीसी (बी एन)/81

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय :—आस एवं बेंस के लिए निर्यात नीति ।

मिति सं. 6/4/80/ई-1.—उपयुक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन
सं. ई(सी) ओ. 1877/एम(190) दिनांक 1 जनवरी, 1981 की ओर ध्यान दिलाया
जाता है ।

2. कुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन बेंस के निर्यात की अनुमति देने का
निश्चय किया गया है ।

3 उच्चतम सीमित सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर जहाजरानी बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा 'बांस' के निर्यात की भी अनुमति देने का निश्चय किया गया है। लेकिन, निर्यात नीति अप्रैल 80—मार्च 81 के पैरा 14 के प्रावधान लागू नहीं होगा।

4. तदनुसार, निम्नलिखित प्रविष्टियों निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-1, अनुबन्ध-2 के पैरा 6 (निर्यात नीति अप्रैल 80—मार्च 81 के पृष्ठ 29) के बाद जोड़ी जाएगी—

“7. सुले सामान्य वाइसेस.3 के अधीन बँत के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

8 पहले आए सो पहले पाए के आधार पर जहाजरानी बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा उच्चतम सीमित सीमा के भीतर बांस के निर्यात की अनुमति दी जाएगी लेकिन निर्यात नीति 1980-81 के पैरा 14 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

मणिनारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक (आयात-निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 1-ETC(PN)/81

New Delhi, the 1st January, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

Subject:—Export Policy for bamboo and cane.

F. No. 6/4/80/EL.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment No. E(C)O, 1977/AM(190) dated the 1st January, 1981, on the above subject.

2. It has been decided to allow export of 'cane' under OGL 3.

3. It has also been decided to allow export of 'bamboo' on a limited ceiling on first come first served basis by endorsement on shipping bills. However, the provisions of Para 14 of Export Policy April, 80—March, 81, will not be applicable.

4. Accordingly, the following entries shall be added after Para No. 6 in Annexure II Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 (Page 29 of Export Policy, April 80—March, 1981):—

“7. Export of Cane will be allowed under OGL 3.

8. Export of Bamboo will be allowed within a limited ceiling on first come first served basis, by endorsement on shipping bills. However, provisions of Paragraph 14 of Export Policy 1980-81 shall not be applicable.”

MANI NARAYAN SWAMI, Chief Controller of Imports & Exports